



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 255]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 1979/श्रावण 19, 1901

No. 255]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 1979/SRAVANA 19, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

प्रधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1979

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० कां० वि० 480 (घ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की प्रधिसूचना सं० 153/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त प्रधिसूचना में, अनुसूचि परम्पुक के स्थान पर निम्नलिखित परम्पुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह भी कि सारणी में उल्लिखित ऐसे उत्पादों को वशा में, जो निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी से बने हुए भट्टी की सहायता से निर्मित किए जाते हैं, अर्थात् :—

(क) पुराना लोहा या इस्पात पिचलन स्केप ;

(ख) उपर्युक्त (क) में विनिर्दिष्ट सामग्री तथा नए अप्रयुक्त इस्पात पिचलन स्केप का सम्मिश्रण, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है ;

(ग) उक्त प्रथम अनुसूची की मव सं० 26 के अंतर्गत बाने वाले किसी प्रकार के कच्चे लोहे तथा उपर्युक्त (क) या (ख) में निर्दिष्ट सामग्रियों के साथ, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क की रकम पहले ही दे दी गई है ;

(घ) बंदूक भट्टी की सहायता से इस्पात शिलिकाओं के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले स्कल स्केप और रनर तथा राइजर तथा उपर्युक्त (क), (ख) या (ग) में निर्दिष्ट सामग्रियों के साथ ; और

(ङ) लोहे और इस्पात के धायातित पिचलन स्केप (लोहे और इस्पात के भारी पिचलन स्केप में भिन्न), तथा उपर्युक्त (क), (ख), (ग) या (घ) में निर्दिष्ट सामग्रियों के साथ, सारणी के स्तम्भ (3) में वस्तुओं की प्रविष्टि के सामने विनिर्दिष्ट शुल्क की राशि दो सौ तोस रुपये प्रति मीटरी टन कम कर दी जाएगी।”

[245/79/सी० ई०/का० सं० 137/8/78-सी० एक्स-4]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 10th August, 1979

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 480(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the

Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 153/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, namely :—

In the said notification, for the fourth proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided also that in the case of the products mentioned in the Table, manufactured with the aid of electric furnace from any of the following materials, namely :—

- (a) old iron or steel melting scrap;
- (b) a combination of the material referred to at (a) above with fresh unused steel melting scrap on which the appropriate amount of duty of excise has been paid;
- (c) iron in any crude form falling under Item No. 25 of the said First Schedule on which the appropriate amount of duty of excise has been paid, in combination with the materials referred to at (a) or (b) above;
- (d) skull scrap and runners and risers arising in the course of manufacture of steel ingots with the aid of electric furnace, in combination with the materials referred to at (a), (b) or (c) above; and
- (e) imported melting scrap of iron and steel (other than heavy melting scrap of iron and steel), in combination with the materials referred to at (a), (b), (c) or (d) above,

the amount of duty specified against corresponding entry in column (3) of the Table shall be reduced by two hundred and thirty rupees per metric tonne.”

[No. 245/79-CE/F. No. 137/8/78-CX. 4]

क्रा० क्र० नि० 481 (घ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 159/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 अप्रैल, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु इस अधिसूचना में दी गई छूट तभी लागू होगी जब सारणी में वर्णित उत्पादों का विनिर्माण वैद्युत भट्टी की सहायता से निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी से किया जाता है, अर्थात् :—

- (क) पुराना सोहा या इस्पात पिचलन स्क्रैप ;
- (ख) उपर्युक्त (क) में निम्नलिखित सामग्री तथा नए अध्युक्त इस्पात पिचलन स्क्रैप का सम्मिश्रण, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है ;

(ग) उक्त प्रथम परन्तुकी की सं० सं० 25 के अंतर्गत आने वाले किसी प्रकार का कच्चा सोहा तथा उपर्युक्त (क) या (ख) में निर्दिष्ट सामग्रियों के साथ, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क दे दिया गया है ।

(घ) वैद्युत भट्टी की सहायता से इस्पात शिफिकों के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले स्कल स्क्रैप और रनर और राइजर तथा उपर्युक्त (क), (ख) या (ग) में निर्दिष्ट सामग्री के साथ ; और

(ङ) सोहे और इस्पात के आयातित पिचलन स्क्रैप (सोहे और इस्पात के भारी पिचलन स्क्रैप से भिन्न) तथा उपर्युक्त (क), (ख), (ग) या (घ) में निर्दिष्ट सामग्रियों के साथ ।” ।

[सं० 246/79-सी० ई० /क्रा० सं० 137/8/78-सी० एक्स-4]

एस०एन० बूसी, अवर सचिव

G.S.R. 481(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 159/79-Central Excises, dated the 9th April, 1979, namely :—

In the said notification, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that the exemption contained in this notification shall apply when the products mentioned in the Table are manufactured with the aid of electric furnace from any of the following materials, namely :—

- (a) old iron or steel melting scrap ;
- (b) a combination of the material referred to at (a) above with fresh unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise has been paid ;
- (c) iron in any crude form falling under Item No. 25 of the said First Schedule on which the appropriate amount of duty of excise has been paid, in combination with the materials referred to at (a) or (b) above ;
- (d) skull scrap and runners and risers arising in the course of manufacture of steel ingots with the aid of electric furnace, in combination with the materials referred to at (a), (b) or (c) above ; and
- (e) imported melting scrap of iron and steel (other than heavy melting scrap of iron and steel), in combination with the materials referred to at (a), (b), (c) or (d) above :”

[No. 246/79-CE/F. No. 137/8/78-CX. 4]

S. N. BUSI, Under Secy.